



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेंट, वाराणसी**  
**प्रेस-नोट**

दिनांक:- 07.01.2023

**थाना चौक पुलिस द्वारा 30.500 किलोग्राम प्रतिबन्धित चाइनीज माँझा बरामद व एक नफर**  
**अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री मुथा अशोक जैन महोदय वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी श्री राम सेवक गौतम महोदय के आदेश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री राजेश पाण्डेय ज़ोन काशी महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध श्री अवधेश कुमार पाण्डेय महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक चौक श्री शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा दिनांक 06.01.2023 को समय 20.15 बजे एक पतंग की दुकान पतंग गली कुडीगढ़ टोला के पास से एक नफर अभियुक्त को एक प्लास्टिक की सफेद बोरी में 30.500 किलोग्राम प्रतिबन्धित चाइनीज माँझा के साथ गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियोग का विवरण:-** मु0अ0सं0 05/2023 धारा 291/336 IPC व 5/15 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम' 1986 थाना चौक कमिश्नरेंट वाराणसी।

**अभियुक्त का विवरण:-**

1. अभियुक्त सलमान अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी सी0के0 43/115 गोविन्दपुरा कला थाना चौक कमिश्नरेंट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-** 30.500 किलोग्राम प्रतिबन्धित चाइनीज माँझा।

**गिरफ्तारी एवं बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान -** दिनांक 06.01.2023, समय 20.15 बजे, स्थान- एक पतंग की दुकान पतंग गली कुडीगढ़ टोला के पास।

**घटना का विवरण:-**

दिनांक 06.01.2023 को चौकी प्रभारी दालमण्डी उ0नि0 अजय कुमार, उ0नि0 अभिनव श्रीवास्तव व का0 विरेन्द्र पाल थाना के सामने गस्त कर रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की कुडीगढ़ टोला में किसी दुकान पर प्रतिबन्धित चायनिज माँझा बेचा जा रहा है। मुखबिर खास के बताये दुकान पर एक बारगी पहुंचकर दबिश दिया गया तो दुकान पर एक व्यक्ति मिला जिससे उसका नाम- पता पूछा गया तो वह घबराने लगा तथा और दबाव देकर पूछा गया तो उसने अपना नाम सलमान अहमद S/O वकील अहमद नि0 CK 43/115 गोविन्द पुरा कला Ps चौक वाराणसी उम्र 23 वर्ष बताया। दुकान पर रखे आगे कार्टून को देखा गया तो उसमें काफी मात्रा में चाइनीज माँझा मिला। जिस सम्बन्ध में दुकानदार से जीवन भय कारित करने वाले प्रतिबन्धित चाइनीज माँझा बेचने का लाइसेन्स मांगा गया तो दिखाने से

कासिर रहा । मौके से प्रतिबन्धित चायनीज माँझा को बरामद कर तथा गिरफ्तार अभियुक्त को थाना लाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम: -**

1. श्री शिवाकांत मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना –चौक, कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार, चौकी प्रभारी दालमण्डी, थाना चौक, कमि0 वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री अभिनव श्रीवास्तव, चौक प्रभारी काशीपुरा थाना चौक कमि0 वाराणसी ।
4. हे0कां0 पुनदेव सिंह, अपराध निरोधक दस्ता, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. कां0 सुनील कुमार, अपराध निरोधक दस्ता, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. कां0 विरेन्द्र पाल, थाना चौक, कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,  
जोन काशी कमिश्नरेट  
वाराणसी।